



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1340]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशाख 21, 1939

No. 1340]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

I Md ifjogu vkj jktekxl ea=ky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

dk-vk- 1517/1/2—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1925(अ), तारीख 1 जून, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 115.700 कि.मी. से 119.850 कि.मी. (रोहतक—हिसार सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27 सितम्बर, 2016 को “अमर उजाला” और “दि इण्डियन एक्सप्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

vud iph

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 115.700 कि.मी. से 119.850 कि.मी. तक (रोहतक—हिसार सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम व हदबस्त संख्या	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल			हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				आयात संख्या	खेत संख्या			(कनाल)	(मरला)	(वर्ग मीटर)	
1	2	3	4	5		6	7	8			9
1	भिवानी	भिवानी	मुढाल खुर्द	93 / /	25 / 2 / 1 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	6	151.758	सुधा पत्नी ताराचन्द, जगबीर पुत्र दरिया सिंह, विजय कुमार पुत्र रामप्रकाश, बलजीत पुत्र मनीराम, रोहताश पुत्र हरकेश, श्रीमती जीवनी पत्नी धर्मबीर सिंह, सतीश कुमार पुत्र भीम सिंह, कप्तान पुत्र सतबीर सिंह, विनोद पुत्र बलजीत सिंह, जसबीर पुत्र वजीर सिंह, विजय पुत्र रामफल, रामनारायण पुत्र राम सिंह, जोहरी राम पुत्र बहन्नाराम
			G-C-I 57		xkdk dly tkM+			0	6	151-758	

[फा. सं. भाराराप्रा/पकाई—रोहतक/रोहतक—हिसार/भूमि/16—17]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2017

S.O. 1517(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways, number S.O. 1925(E), dated the 1st June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 10, on the stretch of land from Km 115.700 to Km. 119.850 (Rohtak-Hisar Section) in the district of Bhiwani in the State of Haryana;

And whereas the substance of the said notification has been published in the “**Amar Ujala**” and “**The Indian Express**”, both dated 27 September 2016; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 115.700 to Km. 119.850 (Rohtak-Hisar Section) on the National Highway No. 10 in the State of Haryana

Sl. No.	Name of the district	Name of the tehsil	Name of village & hadbast number	Survey number		Type of land	Nature of land	Area			Name of land the person interested
				Rectangle number	Field number			In (Kanal)	In (Marla)	In (Square metres)	
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.			9.
1	Bhiwani	Bhiwani	Mudhal Khurd	93//	25/2/1/2	Private	Agricultural	0	6	151.758	Sudha W/o Tarachand, Jagbir S/o Dariya Singh, Vijay Kumar S/o Ramparkash, Baljit S/o Maniram, Rohtash S/o Harkesh, Smt. Jiwani W/o Dharmbir Singh, Satish Kumar S/o Bhim Singh, Kaptan S/o Satbir Singh, Vinod S/o Baljeet Singh, Jasbir S/o Wazir Singh, Vijay S/o Ramphal, Ramnarayan S/o Ram Singh, Johari Ram S/o Bahannaram
			H.B. No. 57		<u>Total of Village</u>			<u>0</u>	<u>6</u>	151.758	

[F. No. NHAI/PIU-RTK./Rtk-Hsr/Land/16-17]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.